



# Government Mahamaya College, Ratanpur

495 442

District – Bilaspur (CG)

Website: [www.gmcratanpur.ac.in](http://www.gmcratanpur.ac.in); Phone/ Mobile : 07753-255490, 9300311524, 8962311524,  
Email: [gmc\\_ratanpur@rediffmail.com](mailto:gmc_ratanpur@rediffmail.com); [pri-mratanpur.cg@gov.in](mailto:pri-mratanpur.cg@gov.in); [col-mratanpur.cg@gov.in](mailto:col-mratanpur.cg@gov.in)

## ACTION TAKEN REPORT 2021 - 2022

आधारभूत संरचना विकास - रूसा अंतर्गत रू. 70 लाख के रेनोवेशन प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त की गई । इसके अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा पुराने भवन के मरम्मत, सायकल स्टैंड, स्टेज, कांग्रेस हॉल आदि का निर्माण किया । ग्रंथालय हेतु एन-लिस्ट सुविधा का नवीनीकरण भी किया गया ।

### नैक मूल्यांकन एवं प्रत्यायन (4-5 अप्रैल 2022)

महाविद्यालय के नैक मूल्यांकन हेतु गत 05 सत्रों में अध्यक्ष, अध्यापन, सहायक शैक्षणोत्तर गतिविधियों, क्रीड़ा, रा.से.यो., रेडक्रास के कार्यक्रमों की जानकारी तैयार कर नैक मुख्यालय बंगलुरु प्रेषित की गई थी । वर्ष वार उनके अनुमोदन पश्चात् एस.एस.आर. तैयार कर प्रेषित की गई । नैक मुख्यालय के विशेषज्ञों ने उसका परीक्षण कर महाविद्यालय में निरीक्षण हेतु आने की तिथि तय करने हेतु महाविद्यालय प्रशासन को सूचना दी । महाविद्यालय प्रशासन ने 04-05 अप्रैल का प्रस्ताव भेजा था जिस पर सहमति प्राप्ति हुई और 03 सदस्यों के दल ने 02 दिवस में महाविद्यालय का मूल्यांकन किया । 05 वर्षों की भेजी गई जानकारी का विश्लेषण एवं परिसर में उपलब्ध सुविधाओं और अन्य गतिविधियों के निरीक्षण, अवलोकन पश्चात् तैयार प्रतिवेदन अनुसार नैक मूल्यांकन में 'बी' ग्रेड प्राप्त हुआ ।

### ग्रीन चैंपियनशिप अवार्ड 2021-22

महाविद्यालय को सत्र 2021-22 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद्, हैदराबाद के द्वारा बिलासपुर जिले का ग्रीन चैंपियनशिप अवार्ड प्रदान किया गया । यह पुरस्कार महाविद्यालय की हरित संपदा और स्वच्छता के लिए प्रदान किया गया । इसके लिए महाविद्यालय का भौतिक अवलोकन हैदराबाद से पधारे अधिकारी ने किया था ।

### वर्तमान सत्र में संपादित महत्वपूर्ण अन्य गतिविधियाँ

1. 02 अक्टूबर 2021 - महात्मा गांधी जी की जयंती अवसर पर परिसर में स्वच्छता हेतु श्रमदान किया गया ।
2. 31 अक्टूबर 2021 - सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ ली गई ।
3. 26 नवम्बर 2021 - संविधान दिवस के अवसर पर सभी छात्र-छात्राओं को कक्षा में संविधान की प्रस्तावना के पालन की शपथ दिलाई गई, तत्पश्चात् सभी प्राध्यापकों, कर्मचारियों ने शपथ ली ।
4. 10 दिसम्बर 2021 - को शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस एवं मानवाधिकार दिवस पर सामान्य ज्ञान, छ.ग. के वीर स्वाधीनता सेनानियों पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया ।
5. 16 दिसम्बर 2021 - हिन्दी विभाग द्वारा स्वरचित काव्य सृजन से छ.ग. के प्रसिद्ध कवि श्री सनत तिवारी एवं कवयित्री रश्मि गुप्ता की उपस्थिति में स्वरचित कविताओं का पाठ किया गया ।
6. 25 जनवरी 2022 - राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी प्राध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं ने निष्पक्ष निर्भीक एवं शत प्रतिशत मतदान हेतु संकल्प एवं शपथ ली ।
7. 24 फरवरी 2022 - एरिना एनिमेशन बिलासपुर महाविद्यालय के कॅरियर गाइडेंस सेल तथा वाणिज्य विभाग के संयोजन में एनिमेशन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं विषय पर ऑनलाईन व्याख्यान का आयोजन किया गया । इसके विषय विशेषज्ञ श्री संदीप गुप्ता संचालक एरिना एनिमेशन बिलासपुर थे ।
8. 28 फरवरी 2022 - राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को विज्ञान संकाय द्वारा चंद्रशेखर व्यंकट रमण की जयंती मनायी गई ।
9. 28 फरवरी 2022 - कॅरियर गाइडेंस सेल तथा वाणिज्य विभाग के द्वारा वित्तीय साक्षरता तथा निवेशक जागरूकता पर व्याख्यान का आयोजन किया गया । इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता वित्त सलाहकार श्री बफरूद्दीन थे ।
10. 03 मार्च 2022 - पी.एस.सी. की तैयारी एवं सफलता पर व्याख्यान का आयोजन किया गया । कार्यक्रम के मुख्य वक्ता

भट्ट कॅरियर शेपर के संचालक पूर्णेन्दु भट्ट थे । यह आयोजन इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र विभाग एवं कॅरियर गाइडेंस सेल के संयोजन में किया गया ।

11. 04 मार्च 2022 - जंतु विज्ञान विभाग के संयोजन में तनाव प्रबंधन विषय पर चर्चा का आयोजन किया गया जिसके मुख्य वक्ता महेन्द्र सिंह धपोला थे ।
12. 05 मार्च 2022 - अंग्रेजी विभाग द्वारा A Practical Approach to effective Communication विषय पर ऑनलाईन व्याख्यान का आयोजन किया गया ।
13. सत्र 2021-22 में 02 मूल्य वर्धित पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया । वाणिज्य विभाग में एकाउंट एवं टैली तथा इतिहास विभाग द्वारा टूरिस्ट गाइड का 03 माह का सर्टिफिकेट कोर्स संपन्न कराया गया ।
14. इतिहास विभाग द्वारा रतनपुर के प्रसिद्ध 14 ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के फोटो, उनके इतिहास, निर्माण अवधि, शैली के साथ मुख्य भवन में लगाए गए ।
15. जनभागीदारी समिति की बैठक में निर्णय अनुसार निर्माणाधीन बालिका छात्रावास से लगी भूमि में मिट्टी डलवाकर समतलीकरण का कार्य किया गया ।
16. जनभागीदारी समिति में स्वीकृत प्रस्ताव अनुसार ही सभी विभागों के कक्षों में विषय के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों, इतिहासविद्, साहित्यकार, अर्थशास्त्री के आकर्षक चित्र एवं उनके प्रेरक वचनों की प्रस्तुति की गई ।
17. महाविद्यालय विकास मद से खेल मैदान के प्रवेश द्वार के निकट कैंटीन संचालन हेतु आवश्यक खाद्य सामग्री निर्माण हेतु कक्ष दिया गया तथा लगी भूमि में शेंड बनाकर खाने के लिए उपयुक्त स्थान तैयार किया गया है । जहां कैंटीन से क्रय की गई खाद्य सामग्री का विद्यार्थी सुविधा से बैठकर उपयोग करते हैं ।
18. महाविद्यालय विकास मद से ही पुराने भवन के सामने, वाचनालय के निकट, रूसा भवन और मुख्य भवन के मध्य के रास्ते के दोनों ओर लोहे की जाली लगवाई गई और उनमें लगी पट्टी पर पर्यावरण संरक्षण के प्रेरक उद्बोधन सुंदर रूप में लिखे गए ।
19. एन.एस.एस. के गोद ग्राम घांसीपुर में संचालित आंगनबाड़ी के 03 बच्चों के सुपोषण आहार हेतु पूर्व प्राचार्य डॉ. आर.एस. खेर, प्रो. देवलाल उड़के, डॉ. प्रमोद तिवारी द्वारा गोद लिया गया ।



(DR. R. S. KHER)  
Principal  
Govt. Mahamaya College,  
Ratanpur, Distt. Bilaspur (C.G.)